



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2005/पौष 24, 1926

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2005/PAUSA 24, 1926

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2005

सं.का.नि. 24(अ).—कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के उपरान्त भर्ती पद्धति का प्रावधान करने संबंधी विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान भर्ती विनियम, 2005 कहा जाए।  
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्रारंभिक नियुक्ति.—इन विनियमों के प्रारम्भण से पहले नियुक्त व्यक्तियों को इन विनियमों के तहत नियुक्त हुआ माना जाएगा : बशर्ते कि संबंधित वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति पात्रता मानदण्ड पूरे करता हो (इन विनियमों के तहत उपबंधित)।
5. अनर्हता.—वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह का करार किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का करार किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति.—इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

## I केन्द्रीय कार्यालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित पद
1	2	3	4	5
2. उपनिदेशक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन	समूह 'क'	10000-325-15200 रु.	योग्यता के आधार पर चयन
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है		सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा		सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
6	7	8		
नहीं	50 वर्ष से कम (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विशिष्ट श्रेणियों के लिए सिधिलनीय)	लागू नहीं होता		
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होंगी		परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि	भर्ती का तरीका: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
9	10	11		
आयु-नहीं, शैक्षिक-नहीं			अस्पष्टात्मक संविदा सहित पदोन्नति/प्रतिनिधित्व द्वारा	
पदोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनिधित्व सम्बद्ध स्थानांतरण किया जाना है		यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
12	13	14		
पदोन्नति/प्रतिनिधित्व क. पदोन्नति 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या 8000-275-13500/- रु. के वेतनमान में संबंधित ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी। ख. प्रतिनिधित्व: नियमित आधार पर सदृश पद धारक या 8000-275-13500/- रु. के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा या 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार स्वायत्त निकाय/संविधिक संगठन/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जिन्हें लेखा तथा प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो।	1. संयुक्त सचिव — अध्यक्ष 2. निदेशक — सदस्य 3. शासी बोर्ड का सदस्य — सदस्य 4. संस्कृति विभाग द्वारा एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से मनोनीत किया जाएगा।	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5
3. रंगमंच एवं प्रस्तुति व्यवस्थापक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह 'क'	8000-275-43,500 रु.	योग्यता के आधार पर चयन
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य :		
		(i) क. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (2) भरतनाट्यम या कर्नाटक संगीत में 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव		
		(ii) संस्कृत/तेलुगु/कन्नड़/मलयालम में से किसी एक भाषा और हिन्दी पढ़ने तथा लिखने की क्षमता		
		(iii) मंच प्रकाश व्यवस्था, मंच शिल्प, नृत्यकला का पर्याप्त ज्ञान और नृत्य निष्पादन में अनुभव		
		(iv) वेशभूषा अभिकल्प और रंग सजा में अनुभव		
9	10	11		
नहीं	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती से		
12	13	14		
6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में ग्रेड में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त सहायक प्रोफेसर	1. संयुक्त सचिव — अध्यक्ष संस्कृति विभाग 2. शासी बोर्ड द्वारा शासी बोर्ड का एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा। 3. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
4. मुख्य लेखा अधिकारी	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह 'ख'	7450-225-11,500 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
9	10	11		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा		
12	13	14		
सदृश पद धारक या 5500-175-9000/- रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले आईएएडी/आईसीएडी या अन्य किसी सरकारी विभाग/सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने एस ओ जी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5
5. प्रशासनिक अधिकारी	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन	समूह 'ख'	6500-200-10,500 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	45 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य :		
		(1) स्नातक (पप) 5500-175-9000/- रु. के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा या 5000-150-9000/- रु. के वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा		
		2. केन्द्र/राज्य/स्वायत्त निकाय/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय में पर्यवेक्षक संवर्ग में 10 वर्ष का अनुभव		
		3. केन्द्र सरकार के नियमों तथा विनियमों का ज्ञान		
		4. लेखा का ज्ञान		
9	10	11		
नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
केन्द्र सरकार/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक संगठनों/ मान्यता प्राप्त संस्थानों से सदृश पद धारक या 5500-175-9000/- रु. के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	1. संयुक्त सचिव — अध्यक्ष 2. निदेशक—सदस्य 3. शासी बोर्ड का सदस्य—सदस्य	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	
6. इंजीनियर अधिकारी	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन	समूह 'ख' (अराजपत्रित)	5500-175-9000 रु.	
5	6	7	8	
नहीं	नहीं	35 वर्ष (केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप विशिष्ट श्रेणियों के मामले में शिथिलनीय)	5 वर्ष का अनुभव प्राप्त इंजीनियर स्नातक (सिविल/इलेक्ट्रिकल) या 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा धारक जिन्हें निर्माण कार्य में अनुभव या विद्युत इंजीनियरिंग में व्यवहारिक अनुभव हो	

9	10	11			
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा			
12	13	14			
लागू नहीं होता	1. संयुक्त सचिव संस्कृति— अध्यक्ष विभाग 2. निदेशक कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान —सदस्य 3. शासी बोर्ड द्वारा मनोनीत एक सदस्य —सदस्य 4. संबंधित क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	लागू नहीं होता			
1	2	3	4	5	
7. ईडीपी प्रोग्रामर	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन अध्यधीन	समूह 'ख' (अराजपत्रित)	5000-150-8,000 रु.	लागू नहीं होता	
6	7	8	9	10	11
नहीं	35 वर्ष	नीचे दी गई हैं	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती
12	13	14			
लागू नहीं होता	1. निदेशक — अध्यक्ष संस्कृतिक विभाग 2. निदेशक कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान —सदस्य 3. शासी बोर्ड द्वारा मनोनीत एक सदस्य —सदस्य 4. संबंधित क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	लागू नहीं होता।			

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं:

अभिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/प्रचालन अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र/कृषि (सांख्यिकी सहित) में उपाधि या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि या समकक्ष

(2) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/प्रचालन में एक वर्ष के अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन में दो वर्ष का अनुभव

वांछनीय : (3) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान

1	2	3	4	5
8.	प्रशासनिक सहायक	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन	समूह 'ग' 4500-125-7,000 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	28 वर्ष	अनिवार्य : (i) स्नातक (ii) केन्द्र सरकार के नियमों तथा विनियमों के ज्ञान सहित प्रशासन/सरकारी लेखों में 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय : कम्प्यूटर पर 'ओ' लेवल डी ओ ई ए सी ई में काम करने का ज्ञान		
9	10	11		
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता—नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
4000-100-6000/- रु. के वेतनमान में संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक	1. निदेशक — अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग का नामिति	लागू नहीं होता।		
1	2	3	4	5
9. वरिष्ठ लेखाकार	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह "ग"	5000-150-8000 रु०	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
9	10	11		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा		
12	13	14		
संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले लेखाकार	1. निदेशक—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का एक नामिति	लागू नहीं होता।		

1	2	3	4	5
10. लेखाकार	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	4500-125-7000 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक या समकक्ष उपाधि (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में लेखा कार्य में 4 वर्ष का अनुभव (iii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीबी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
1. 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त उच्च श्रेणी लिपिक 2. 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त वाणिज्य में डिप्लोमा धारक अवर श्रेणी लिपिक	1. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का एक नाभिति	लागू नहीं होता।		
1	2	3	4	5
11. उच्च श्रेणी लिपिक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	4000-100-6000 रु०	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
9	10	11		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा		
12	13	14		
संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिक	1. निदेशक—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि	लागू नहीं होता।		
1	2	3	4	5
12. अवर श्रेणी लिपिक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	3050-75-3950- 80-4590 रु०	लागू नहीं होता

6	7	8		
नहीं	27 वर्ष	अनिवार्य : (i) स्नातक (ii) टंकण (अंग्रेजी उच्च ग्रेड) (iii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान वांछनीय : (i) किसी संगठन में तीन वर्ष का अनुभव		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि 3. संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि।	लागू नहीं होता।		
एक पद केन्द्रीय कार्यालय में एक पद बी ए एस में				
1	2	3	4	5
13. वरिष्ठ आशुलिपिक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	4500-125-7000 रु०	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य : (i) स्नातक (ii) उच्च ग्रेड में टंकण (अंग्रेजी) तथा प्रति 100 शब्द मिनट गति से आशुलिपि (अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण। (iii) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी प्रतिष्ठित संगठन में 5 वर्ष का अनुभव। (iv) कम्प्यूटर पर डी ओ ई ए ई सी के ओ लेवल में काम करने का ज्ञान।		
9	10	11		
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कनिष्ठ आशुलिपिक	1. निदेशक —अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का नामिति	लागू नहीं होता		



1	2	3	4	5
14. कनिष्ठ आशुलिपिक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	4000-100-6000/- रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	25 वर्ष	अनिवार्य :		
		(i) स्नातक उपाधि के साथ टंकण (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट से अधिक की गति तथा आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और किसी प्रतिष्ठित संगठन में 3 वर्ष का अनुभव।		
		(ii) कम्प्यूटर पर डी ओ ई ए ई सी के ओ लेवल में काम करने का ज्ञान।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का नामिति—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि—सदस्य	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
15. तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'ख'	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ख" (अराजपत्रित)	5500-175-9000/- रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य :		
		(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रो-निक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी में उपाधि।		
		(ii) मंच प्रकाश व्यवस्था तथा ध्वनि व्यवस्था में पांच वर्ष का अनुभव।		
		(iii) कम्प्यूटरीकृत/कन्ट्रोल पैनल तथा बोर्डों आदि जैसे मंच प्रकाश व्यवस्था के आधुनिक उपस्कर प्रचालन की क्षमता।		
		वांछनीय :		
		(i) वीडियोग्राफी तथा साठण्ड रिकार्डिंग में अनुभव।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
16. ड्राइवर मैकेनिक	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्वधीन।	समूह "ग"	3050-75-3590- 80-4590 रु०	नहीं

6	7	8
नहीं	30 वर्ष	अनिवार्य : (i) एस. एस. एल. सी. तथा राज्य सरकार द्वारा जारी भारी मोटर वाहन के लिए वैध लाइसेंस। (ii) भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव। (iii) वाहन रख-रखाव का पर्याप्त ज्ञान और छोटी-मोटी मरम्मत करने की योग्यता।

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
17. क्लीनर (बस)	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्वधीन।	समूह "घ"	2550-55-2660- 60-3200/- रु०	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	28 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक या उनका नामिति—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड का एक सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
18. वरिष्ठ तकनीशियन (रंगमंच)	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	3050-75-3950- 80-4590/- रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
9	10	11		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा		
12	13	14		
ऐसे तकनीशियन, जिन्होंने अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो अथवा वे व्यक्ति जिन्होंने 2650-65-3300-70-4000 रु० के वेतनमान के अपने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्हें मंच का प्रबंध और व्यवस्था करने की जानकारी हो।	1. निदेशक, अथवा उनके नामिति—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के नामिति—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि।	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
19. तकनीशियन	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "घ"	2650-65-3300- 70-4000/- रु०	वयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) कक्षा 8 उत्तीर्ण (ii) 5 वर्ष किसी सांस्कृतिक संस्थान में मंच का प्रबंध करने का अनुभव		
9	10	11		
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—हाँ	सीधी भर्ती पर आने वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
2550-55-2660-60-3200 रु० के वेतनमान में प्रतिष्ठान में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अपने संवर्ग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और जिन्हें मंच के प्रबंध और व्यवस्था की जानकारी हो।	1. निदेशक अथवा उनके नामिति—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के नामिति—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5
20. बिजली मिस्त्री	3* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	3050-75-3950- 80-4590/- रु०	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	25 वर्ष	राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी वैध "बी" लाइसेंस सहित एस. एस. एल. सी उत्तीर्ण और किसी प्रतिष्ठित संगठन में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव		
9	10	11		
आयु — नहीं शैक्षिक अर्हता — हाँ	सीधी भर्ती पर आने वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
सहायक बिजली-मिस्त्री, जिन्होंने संवर्ग में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	1. निदेशक 2. शासी बोर्ड के नामित 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	—अध्यक्ष —सदस्य	लागू नहीं होता	
केन्द्रीय कार्यालय—1 आर डी सी एफ — 1 बी सी सी एच — 1				
1	2	3	4	5
21. सहायक बिजली- मिस्त्री	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'घ'	2650-65-3300-70- 4000/- रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) कक्षा X उत्तीर्ण (ii) आई. टी. आई. से विद्युत इंजीनियरी में प्रमाण-पत्र (iii) उक्त क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5
22. चौकीदार	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'घ'	2550-55-2660-60- 3200 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) कक्षा XIII उत्तीर्ण (ii) सुरक्षा कार्य में अनुभव वांछनीय (iii) भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के नामित 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
23. माली	10* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'घ'	2550-55-2660-60- 3200 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) कक्षा VIII उत्तीर्ण (ii) सुरक्षा कार्य में अनुभव वांछनीय (iii) भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के नामित 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता		

केन्द्रीय कार्यालय — 7

बी ए एस एस — 1

बी सी सी एच — 2

1	2	3	4	5
24. चपरासी	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "घ"	2550-55-2660-60- 3200 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	कक्षा VIII उत्तीर्ण		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के नामित 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	—अध्यक्ष —सदस्य		लागू नहीं होता।
केन्द्रीय कार्यालय — 3				
बी ए एस एस — 1				
बी सी सी एच — 1				
सी ई आर सी — 1				
6				

1	2	3	4	5
25. सफाईवाला (स्वीपर)	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "घ"	2550-55-2660-60- 3200 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	25 वर्ष	(i) कक्षा VIII उत्तीर्ण (ii) सुरक्षा कार्य में अनुभव वांछनीय (iii) भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		

12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामिती 2. सासी बोर्ड के नामिती 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता।		
केन्द्रीय कार्यालय — 4				
बी सी सी एच — 1				
5				
1	2	3	4	5
26. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सैनिटरी वर्कर)	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ब"	2550-55-2660-60- 3200 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	8वीं कक्षा उत्तीर्ण		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

## 2. रूक्मिणी देवी ललित कला महाविद्यालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित पद
1	2	3	4	5
1. प्रधानाचार्य (रूक्मिणी देवी ललित कला महाविद्यालय)	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'क'	9100-275-14,050 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ

6	7	8
नहीं	45--50 वर्ष	पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी अर्हताएँ (i) विशिष्टता के क्षेत्र में डिप्लोमा अथवा उपाधि। (ii) संगीत अथवा नृत्य में प्रवीणता/इनका अच्छा ज्ञान, यद्यपि वह एक प्रदर्शन करने वाला कलाकार नहीं भी हो सकता है/सकती है, उसमें अपनी विशिष्टता की श्रेणी में प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। (iii) कलाकारों के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। (iv) शैक्षिक उपाधि एक अतिरिक्त अर्हता होगी। (v) स्थानीय भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, हिंदी का ज्ञान एक अतिरिक्त अर्हता होगी। (vi) उन्होंने किसी विख्यात संस्थान में पर्यवेक्षण की क्षमता में लगभग 10 वर्ष की सेवा पूरी की होनी चाहिए।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होंगी।

परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि

भर्ती का तरीका: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

9	10	11
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—हाँ	लागू नहीं होता	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न हो पाने पर 8000-275-13500 रु. के ग्रेड में 7 वर्ष के अनुभव सहित किसी विख्यात और मान्यताप्राप्त केंद्रीय/राज्य स्वायत्त संस्थान में समान पदधारी और ऊपर दी गई शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/कम अवधि की संविदा द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति सम्बद्ध स्थानांतरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12	13	14
ग्रेड में 7 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर चुके रुक्मिणी देवी ललित कला महाविद्यालय के प्रोफेसर	1. संयुक्त सचिव 2. निदेशक अथवा उनके नामित 3. शासी बोर्ड के सदस्य 4. निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक सदस्य किसी केंद्रीय/राज्य अथवा अन्य स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंधित ग्रेड से संबंधित होगा। 5. एक विशेषज्ञ उपयुक्त क्षेत्र से होगा।	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता।



1	2	3	4	5
2. प्रोफेसर (भरतनाट्यम)	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "क"	8000-275-13,500 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8
हां	50 वर्ष	अनिवार्य

- (क) कक्षा Xवीं उत्तीर्ण (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विशिष्ट क्षेत्र में डिप्लोमा धारक अथवा पोस्ट डिप्लोमा धारक।  
 (ग) उन्हें अंतिम वर्ष डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा की कक्षाओं को सिद्धांत सहित पाठ्य-सामग्री पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए।  
 (घ) उन्हें कलाक्षेत्र की प्रस्तुतियों में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।  
 (ङ) उन्हें लगभग 2 घंटों का एकल प्रदर्शन देने में सक्षम होना चाहिए।  
 (च) उन्हें गायन में और नट्टवांगम करके नृत्य कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम होना चाहिए।

वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य।

(ii) दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान। संगीत और नृत्य के संकेत-चिह्नों का ज्ञान।

9	10	11
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हां	2 वर्ष	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति/कम अवधि की संविदा जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सहायक प्रोफेसर (भरतनाट्यम)	1. शासी बोर्ड के सदस्य 2. निदेशक—सदस्य 3. निदेशक अथवा संस्कृति विभाग के एक प्रतिनिधि, जो निदेशक के पद से नीचे के न हो 4. क्षेत्र के विशेषज्ञ	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
3. सहायक प्रोफेसर (भरतनाट्यम)	4* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ख"	6500-200-13,500 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8
नहीं	40 वर्ष	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति/कम अवधि की संविदा

12	13	14
ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा वाले प्रवक्ता (भरतनाट्यम)	1. शासी बोर्ड के सदस्य 2. निदेशक—सदस्य 3. निदेशक—संस्कृति विभाग 4. क्षेत्र में विशेषज्ञ	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
4. व्याख्याता (भरतनाट्यम)	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ख"	5500-175-9000 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8
नहीं	45 वर्ष	अनिवार्य (i) कक्षा X उत्तीर्ण (ii) विशिष्ट क्षेत्र में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा धारक अथवा पोस्ट डिप्लोमा धारक। (iii) उन्हें लगभग 2 वर्ष का एकल प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। (iv) उन्हें गायन में तथा नट्टवांगम करके नृत्य कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम होना चाहिए। (v) कलाक्षेत्र प्रदर्शनों में भाग लेने में भी सक्षम होना चाहिए। (vi) उन्हें सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की कक्षाओं और सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। (vii) उन्हें उक्त क्षेत्र में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : किसी दक्षिण भारतीय भाषा और हिंदी का ज्ञान। संगीत और नृत्य के संकेत चिह्नों को लिखने की क्षमता।

9	10	11
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हाँ	लागू नहीं होता	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण कम अवधि की संविदा/एस टी.सी. ऑफिशियल होलिंग

12	13	14
7 वर्ष के अनुभव वाले ट्यूटर (भरतनाट्यम) जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती/ग्रेड में नियमित सेवा	1. शासी बोर्ड के सदस्य—अध्यक्ष 2. निदेशक—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के नामित 4. क्षेत्र में विशेषज्ञ	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
5. ट्यूटर (भरतनाट्यम)	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ग"	5000-150-8000 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	30 वर्ष	अनिवार्य (क) कक्षा X उत्तीर्ण (ख) विशिष्ट क्षेत्र में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा धारक अथवा पोस्ट डिप्लोमा धारक। (ग) उन्हें कलाक्षेत्र प्रस्तुतियों में भाग लेने और लगभग 2 घंटों के लिए एकल प्रस्तुति देने में सक्षम होना चाहिए। (घ) उन्हें गायन में और नटदृवांगम करके नृत्य-कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम होना चाहिए। (ङ) उन्हें प्रायोगिक और सिद्धांत की कक्षाएं अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : किसी दक्षिण भारतीय भाषा और हिंदी का ज्ञान और संगीत और नृत्य संकेत चिह्नों को लिखने की क्षमता।

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती
12	13	14
1. शासी बोर्ड के सदस्य—अध्यक्ष 2. निदेशक—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के नामित 4. क्षेत्र में विशेषज्ञ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
6. प्रोफेसर (संगीत)	3* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह "क"	8000-275-13,500 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8
हां	50 वर्ष	अनिवार्य (i) कक्षा X उत्तीर्ण। (ii) विशिष्ट क्षेत्र में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा अथवा उपाधि अथवा पोस्ट डिप्लोमा धारक। (iii) उन्हें अंतिम वर्ष डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम की कक्षाएं सिद्धांत सहित कक्षाएं पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। (iv) उन्हें कलाक्षेत्र के नृत्य कार्यक्रमों और नृत्य-नाटकों के लिए गाने में सक्षम होना चाहिए। (v) उन्हें संगीत संकेत-चिह्नों को पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य (ii) गायन के प्रोफेसरों के मामले में कक्षा में पढ़ाते समय कोई उपकरण बजाने की क्षमता होनी चाहिए और संगीत-कक्षों के प्रोफेसरों के मामले में गाने की क्षमता होनी चाहिए (iii) किसी दक्षिण भारतीय भाषा/हिंदी का ज्ञान (iv) 5 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत ए ग्रेड कलाकार।

9	10	11
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हाँ	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा/ (कम अवधि की संविदा सहित) स्थानांतरण जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
सहायक प्रोफेसर (संगीत) जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	1. संयुक्त सचिव-संस्कृति विभाग—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. निदेशक —सदस्य 4. संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
7. सहायक प्रोफेसर (संगीत)	4* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ख"	6500-200-13,500 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8
नहीं	40 वर्ष	लागू नहीं होता

9	10	11
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हाँ	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा

12	13	14
व्याख्याता (संगीत) जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों।	1. शासी बोर्ड के सदस्य 2. निदेशक —सदस्य 3. निदेशक—संस्कृति विभाग 4. संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
8. व्याख्याता (संगीत)	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ख"	5500-175-9000 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	योग्यता के आधार पर चयन

6	7	8		
नहीं	45 वर्ष	अनिवार्य (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संगीत में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। (iii) कलाक्षेत्र के नृत्य प्रदर्शनों तथा नृत्य नाटिकाओं में सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए। (iv) स्वरलिपियों को पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। (v) व्यावहारिक एवं सिद्धांत कक्षाओं के संचालन में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : (i) किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान, (ii) 5 वर्षों तक ए आई आर का बी एच कलाकार।		
9	10	11		
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हाँ	सोधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/अथवा अल्पकालिक संविदा द्वारा/जिसके न होने पर सोधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
शिक्षक (संगीत), जिन्होंने ग्रेड में 7 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	1. शासी बोर्ड का सदस्य—अध्यक्ष 2. निदेशक —सदस्य 3. निदेशक —संस्कृति विभाग अथवा संस्कृति विभाग के नामिती जो निदेशक के पद से नीचे न हो 4. इस क्षेत्र के विशेषज्ञ	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
9. शिक्षक (संगीत)	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह "ग"	5000-150-8000 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)	लागू नहीं होता।
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	अनिवार्य (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संगीत में डिप्लोमा अथवा उपाधि प्राप्त। (iii) कलाक्षेत्र के नृत्य प्रदर्शनों तथा नृत्य नाटिकाओं में सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए। (iv) स्वरलिपियों को पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। (v) व्यावहारिक एवं सिद्धांत कक्षाओं के संचालन में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : (i) किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान, (ii) ए आई आर का बी एच कलाकार।		

9	10	11
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती
12	13	14
लागू नहीं होता	1. शासी बोर्ड का सदस्य—अध्यक्ष 2. निदेशक —सदस्य 3. संस्कृति विभाग का नामिती 4. इस क्षेत्र के विशेषज्ञ	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
10. रजिस्ट्रार	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ख"	6500-200-10500 रु०	चयन-सह-वरिष्ठता

6	7	8
नहीं	40 वर्ष	व्याख्याता के पद हेतु आवश्यक योग्यता सहित किसी विख्यात संस्थान से 8 वर्षों के अनुभव के साथ भरतनाट्यम अथवा कर्नाटक संगीत का व्याख्याता।

9	10	11
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता-हाँ	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
व्याख्याता (भरतनाट्यम एवं कर्नाटक संगीत), ग्रेड में 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा सहित प्रतिनियुक्ति : अल्पकालिक संविदा	1. संस्कृति विभाग के निदेशक अथवा एक प्रतिनिधि—अध्यक्ष 2. निदेशक —सदस्य 3. शासी बोर्ड के सदस्य 4. इस क्षेत्र के विशेषज्ञ	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
11. वेशभूषा सहायक—ग्रेड-I	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह "ग"	4000-100-6000 रु०	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि। (ii) किसी नई प्रस्तुति की आवश्यकताओं के मूल्यांकन की योग्यता (iii) शिल्पों का ज्ञान; मंच प्रस्तुतियों के लिए वेशभूषा तैयार करने के 10 वर्षों के न्यूनतम अनुभव सहित। (iv) मंच के साज-सामान, आभूषण और वस्त्रों की समुचित फेहरिस्त तैयार करने की योग्यता (v) तमिल का ज्ञान। चांछनीय : (i) संगीत अथवा नृत्य का ज्ञान, (ii) हिन्दी अथवा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। (iii) वस्त्र डिजाइन में डिप्लोमा।		
9	10	11		
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	2 वर्ष	पदोन्नति, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13		14	
वेशभूषा सहायक, ग्रेड-II ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित	1. शासी बोर्ड के सदस्य—अध्यक्ष 2. निदेशक अथवा उनके नामिती—सदस्य 3. नामिती, संस्कृति विभाग—सदस्य 4. विशेषज्ञ सदस्य		लागू नहीं होता	
1	2	3	4	5
12. वेशभूषा सहायक ग्रेड-II	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह "ग"	3050-75-3950-80-4590 रु०	लागू नहीं होता

6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि अथवा समकक्ष (ii) नई प्रस्तुति की आवश्यकताओं के मूल्यांकन की योग्यता (iii) सिलाई (दर्जीकारी) शिल्पों का अनुभव, शिल्पों का ज्ञान (iv) मंच के साज-सामान, आभूषण और वस्त्रों की समुचित फेहरिस्त तैयार करने की योग्यता। वांछनीय : (i) संगीत अथवा नृत्य का ज्ञान, (ii) हिन्दी अथवा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. शासी बोर्ड के सदस्य 2. निदेशक अथवा उनके नामित 3. नामित संस्कृति विभाग 4. विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
13. वाद्ययंत्र मिस्त्री	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन।	समूह "ग"	3050-75-3950-80-4590 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	अनिवार्य : (i) कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण (ii) तमिल को पढ़ने व लिखने की अनिवार्य योग्यता (iii) मृदंगम, वायलिन, वीणा आदि वाद्ययंत्रों की मरम्मत का कार्य करने की योग्यता (iv) वाद्ययंत्रों को ठीक प्रकार से समस्वरित करने की योग्यता। वांछनीय : (i) किसी वाद्ययंत्र को बजाने की योग्यता (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाद्ययंत्रों के रखरखाव का प्रमाणपत्र।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		



12	13	14		
लागू नहीं होता	1. शासी बोर्ड के सदस्य 2. निदेशक अथवा उनके नामिती 3. नामिती, संस्कृति विभाग 4. विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य		
लागू नहीं होता				
1	2	3	4	5
14. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ख"	5500-175-9000 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	अनिवार्य :		
		1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि अथवा समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष 3. केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान से सम्बद्ध किसी पुस्तकालय अथवा समान प्रकृति के किसी विशेष पुस्तकालय में पाँच वर्षों का अनुभव।		
		वांछनीय :		
		1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि 2. पुस्तकालय स्वचलन का ज्ञान 3. संस्कृत एवं अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ने और समझने की योग्यता 4. स्वरलिपियों को पढ़ने की योग्यता।		
9	10	11		
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	2 वर्ष	पदोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
पुस्तकालय सहायक, ग्रेड में 15 वर्षों की नियमित सेवा सहित। एस. टी. सी. से प्रतिनियुक्ति	1. निदेशक अथवा उनके नामिती 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के नामिती, 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक सदस्य निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य		
लागू नहीं होता				
1	2	3	4	5
15. पुस्तकालय सहायक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह "ग"	3050-75-3950-80- 4590 रु०	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	30 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण-पत्र
<b>अनुभव :</b> सरकार द्वारा मान्य किसी पुस्तकालय अथवा समान प्रकृति के किसी पुस्तकालय में दो वर्षों का अनुभव		
9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती
12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक 2. अवर सचिव, संस्कृति विभाग 3. एक सदस्य शासी बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता

### 3. बेसेंट अरूपडेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित पद
1	2	3	4	5
1. प्रधानाचार्य	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्वधीन।	समूह 'ख'	6500-200-10,500 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार वेतनमान)+600 रु. (पीपी)	योग्यता के आधार पर चयन
क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है				
6	7	8		
नहीं	40 वर्ष	अनिवार्य : (i) विज्ञान/कला में कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, (ii) अध्यापन में उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (iii) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक/केन्द्र सरकार के विद्यालय में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव।  वांछनीय :  हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान, खेल-कूद एवं सह-पाठ्य कार्यकलापों के आयोजन का अनुभव, राज्य/केन्द्र सरकार की नियमावली का ज्ञान।		

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होंगी

परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि

भर्ती का तरीका: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

9 आयु—नहीं  
शैक्षिक अर्हता — हाँ

10 लागू नहीं होता

11 पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति सम्बद्ध स्थानांतरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12 स्नातकोत्तर शिक्षक, ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित

13 1. निदेशक अथवा उनके नामित  
2. शासी बोर्ड के सदस्य  
3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि  
4. शासी बोर्ड द्वारा नामित, संबंधित क्षेत्र के एक विशेषज्ञ

14 —अध्यक्ष  
—सदस्य  
लागू नहीं होता

1 2 3 4 5

2. प्रबंधक 1\* (2000) समूह 'ख' 6500-200-10,500 रु० लागू नहीं होता

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।

6 नहीं 7 35 वर्ष 8

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम. ए/एम. एस. सी./एम. कॉम अथवा समकक्ष  
(ii) शिक्षा में उपाधि  
(iii) केन्द्र सरकार की नियमावली एवं विनियमों का ज्ञान  
(iv) किसी विद्यालय के प्रबंधन का 5 वर्षों का अनुभव

9 लागू नहीं होता 10 2 वर्ष 11 सीधी भर्ती

12 लागू नहीं होता 13 1. निदेशक अथवा उनके नामित  
2. शासी बोर्ड के सदस्य  
3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि  
4. शासी बोर्ड द्वारा नामित, एक विशेषज्ञ

14 —अध्यक्ष  
—सदस्य  
लागू नहीं होता

1 2 3 4 5

3. स्नातकोत्तर शिक्षक पद 12\* (2000) समूह 'ख' 6500-200-10,500 योग्यता के आधार पर चयन

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन। (तमिलनाडु राज्य सरकार के तत्कालीन)

6	7	8
नहीं	27 वर्ष	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समकक्ष (ii) शिक्षा में उपाधि (iii) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में 5 वर्षों का अनुभव

9	10	11
आयु — नहीं शैक्षिक अर्हता — हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
टी. जी. टी. ग्रेड में 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा सहित	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि (अवर सचिव) 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
4. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह 'ग'	5500-175-9000 रु. (तमिलनाडु राज्य सरकार के वेतनमान)	चयन-सह-वरिष्ठता

6	7	8
नहीं	27 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा समकक्ष (ii) शिक्षा में उपाधि (iii) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में 8 वर्षों के अध्यापन का अनुभव

9	10	11
आयु — नहीं शैक्षिक अर्हता — हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
एस. जी. टी. ग्रेड में 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा सहित	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि (अवर सचिव) 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
5. माध्यमिक ग्रेड शिक्षक	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन।	समूह "ग"	4500-125-7000 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार के वेतनमान)	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	27 वर्ष	(i) उच्चतर माध्यमिक, जेबीटी प्लस टू परीक्षा सहित (सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा) जेबीटी सहित। (ii) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय में 3 वर्षों के अध्यापन का अनुभव।
9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
6. संगीत शिक्षक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ग"	4500-125-7000 रु० (तमिलनाडु राज्य सरकार के वेतनमान)	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	27 वर्ष	अनिवार्य

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में उपाधि अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यताप्राप्त संगीत विद्यापीठ से डिप्लोमा सहित उच्चतर माध्यमिक
- (ii) रुक्मिणी देवी ललित कला महाविद्यालय से कर्नाटक संगीत में डिप्लोमा

**वांछनीय :**

- (i) वोकल कर्नाटक संगीत में ए. आई. आर. का 'बी' उच्च ग्रेड,
- (ii) तमिल का ज्ञान
- (iii) संगीत के शिक्षण का अनुभव
- (iv) हिन्दी तथा किसी अन्य दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान
- (v) स्वर लिपियों को पढ़ने और लिखने की योग्यता
- (vi) शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।

9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामिती 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
7. कला शिक्षक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्ष	समूह "ग"	4500-125-7000 रु० (तामिलनाडु राज्य सरकार के वेतनमान)	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	27 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से न्यूनतम दो वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा सहित रेखाचित्र एवं चित्रकला/कला/ललित कला में स्नातक अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रेखाचित्र एवं चित्रकला/ललितकला में स्नातकोत्तर, अथवा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चित्रकला/ललित-कला में न्यूनतम 4 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा सहित उच्चतर माध्यमिक/इंटरमीडियट सीनीयर सेकेण्डरी परीक्षा		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामिती 2. शासी बोर्ड का के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
8. व्यायाम शिक्षा अध्यापक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्ष	समूह 'ग'	4000-100-6000 रु० (तामिलनाडु राज्य सरकार के वेतनमान)	लागू नहीं होता

6	7	8		
नहीं	27 वर्ष	न्यूनतम एक शैक्षिक सत्र के प्रशिक्षण के बाद मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान व्यायाम शिक्षा में स्नातक अथवा बी. पी. एड अथवा डी. पी. एड, बशर्ते कि डिप्लोमा के लिए प्रवेश योग्यता कम से कम विश्वविद्यालय उपाधि हो।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
9. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह 'ग'	5500-175-9000 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	27 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष 3. केन्द्र/राज्य सरकार संस्थान से संबद्ध पुस्तकालय अथवा समकक्ष प्रकृति के विशेष पुस्तकालय में पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. पुस्तकालय स्वचलीकरण का ज्ञान। 3. संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के पढ़ने और समझने की योग्यता। 4. स्वरलिपि पढ़ने की योग्यता।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित —अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि —सदस्य 4. शासी बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्र का नामित एक विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
10. प्रयोगशाला परिचर	3* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह 'घ'	2650-65-3300- 70-4000 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	25 वर्ष	(i) Xवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) प्रयोगशाला में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव

9	10	11
आयु - नहीं शैक्षिक योग्यता - हाँ	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
प्रतिष्ठान के सभी समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने संबंधित वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।	1. निदेशक अथवा उनके नामित —अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि —सदस्य 4. निदेशक द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
11. पुस्तकालय परिचर	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह 'घ'	2650-65-3300- 70-4000 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता

6	7	8
नहीं	25 वर्ष	(i) Xवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) पुस्तकालय में कार्य करने का 3 वर्ष अनुभव



9	10	11		
आयु - नहीं शैक्षिक योग्यता - हाँ	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		
12	13	14		
प्रतिष्ठान के सभी समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने संबंधित वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।	1. निदेशक अथवा उनके नामितों —अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. निदेशक द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं होता		
4. शिल्प शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र				
1	2	3	4	5
1. प्रबंधक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ख'	6500-200-10,500 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. काम अथवा समकक्ष (ii) एसीए/आईसीडब्ल्यूए (इंटर) (iii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पाँच वर्ष का विपणन अनुभव। (iv) केंद्र सरकार के नियमों और विनियमों का ज्ञान। (v) प्रबंधन और में अनुभव।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामितों —अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि (अवर सचिव)	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
2. फोरमैन	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ग'	4000-100-6000 रु०	लागू नहीं होता

6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	(i) X वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) सिल्क और सूती साड़ी बुनाई में प्रशिक्षण (iii) सहकारिता बुनाई सोसाइटी में 5 वर्ष का अनुभव (iv) विशेषतया सिल्क साड़ियों में विभिन्न नमूने और डिजाइन तैयार करने के लिए बुनकरों का मार्गदर्शन करने में दक्ष होना चाहिए।		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित 2. शासी बोर्ड के सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 4. संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ।	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
3. पर्यवेक्षक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन	समूह "ग"	3200-85-4900 रु०	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) उपाधि (ii) वनस्पति डाई का प्रयोग करते हुए ब्लाक प्रिंटिंग में 5 वर्षों का अनुभव, और (iii) कामगारों के कार्यों की देख-रेख में दक्ष हो। वांछनीय : टेलरिंग का ज्ञान		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक—अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य —सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5
4. कुशल कामगार	7* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ग"	3050-75-3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	25 वर्ष	(i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) प्राकृतिक डाई का प्रयोग करते हुए ब्लॉक प्रिंटिंग में अनुभव, (iii) सिलाई बॉयलिंग और रंगरेजी के काम का ज्ञान।		
9	10	11		
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।		
12	13	14		
अर्ध-कुशल कामगारों से पदोन्नति : 5 वर्ष के अनुभव सहित अर्ध-कुशल कामगार	निदेशक—अध्यक्ष सीईआरसी संस्कृति विभाग का प्रतिनिधि	लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5
5. अर्ध-कुशल कामगार	7* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "घ"	2650-65-3300-70- 4000 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	25 वर्ष	(i) कक्षा VIIIवीं उत्तीर्ण (ii) ब्लॉक प्रिंटिंग तथा वेजिटेबल डाई के उपयोग का अनुभव (iii) बॉयलिंग, रंगरेजी, सिलाई आदि काम का ज्ञान होना चाहिए वांछनीय : (i) सिलाई (ii) कटाई (ड्राईंग)		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि (अवर सचिव)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
1. अधीक्षक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ग"	4000-100-6000 रु. (आवास और भोजन मुफ्त)	चयन-सह-वरिष्ठता

6	7	8
नहीं	40 से 50 वर्षों के बीच	स्नातक, 250 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास के प्रबंधन 8 वर्षों के अनुभव सहित

9	10	11
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
हाउस मस्टर्स ग्रेड में 7 वर्षों की सेवा सहित	1. निदेशक—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
2. स्टोर कीपर	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ग"	3050-75-3950-80 4590 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता

6	7	8
नहीं	लागू नहीं होता	एस. एस. एल. सी. उत्तीर्ण, गोदामों के रखरखाव के पाँच वर्षों के अनुभव सहित

9	10	11
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—हाँ	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14		
हाउस मदर्स/बावर्ची, ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि 3. शासी बोर्ड के नामित	लागू नहीं होता।		
1	2	3	4	5
3. हाउस मदर	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह "घ"	2650-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8		
नहीं	30 वर्ष	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के सरकारी/अथवा अर्द्ध सरकारी कक्षा छात्रावास में 5 वर्षों का अनुभव		
9	10	11		
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती		
12	13	14		
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता।		
1	2	3	4	5
4. बावर्ची	3* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह "घ"	2650-65-3300-70-4000 रु.	चयन-सह-वरिष्ठता
6	7	8		
नहीं	35 वर्ष	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, ग्रेड में 8 वर्षों की सेवा सहित वांछनीय : किसी बड़े छात्रावास में कार्य तथा सेवा का अनुभव		
9	10	11		
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा		

12	13	14
सहायक बावर्ची, ग्रेड में 5 वर्षों के अनुभव सहित	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
5. सहायक बावर्ची	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह "घ"	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	25 वर्ष	(i) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, (ii) खाना बनाने का 5 वर्षों का अनुभव

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
6. हाउस मेड	7* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह "घ"	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता

6	7	8
नहीं	30 वर्ष	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण,

9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती

12	13	14
लागू नहीं होता	1. निदेशक अथवा उनके नामित—अध्यक्ष 2. शासी बोर्ड के सदस्य—सदस्य 3. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि	लागू नहीं होता।

[सं. एफ. 3-13/99-एम पी सी सी]

के. जयकुमार, संयुक्त सचिव

# **MINISTRY OF CULTURE NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2005

**G.S.R. 24(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section 2 Section 32 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993, the Kalakshetra Foundation hereby makes on the approval of the Central Government, the following regulations providing for the method of recruitment namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called Kalakshetra Foundation Recruitment Regulations, 2005;

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters concerned thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Initial constitution.**—The persons appointed before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations :

Provided a person appointed to a post in the respective scale fulfills eligibility criteria (provided under these regulations).

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for the appointment of the posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there other special grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with regard to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxations of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE I CENTRAL OFFICE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection/ non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
2. Deputy Director	1* (2000) *Subject to variation depending on workload.	Group "A"	Rs. 10,000-325-15200	Selection on Merit	No
Age limit for direct recruits		Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
7		8		9	10
Below 50 years (relaxable for specific categories as per GOI instruction issued from time to time)		N.A.		Age-No. E.Q.-No.	Not applicable

Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputational/transfer to be made
--	--

11

12

By promotion/deputation including short term contract

Promotion/Deputation

(a) Promotion : Officers in the scale of Pay Rs. 6500-200-10500 with 8 years regular service in the grade. Or Officers in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with 3 years regular service in the grade.

(b) Deputation : Officers of Central/State Govts. Union territories, Autonomous bodies (statutory organisations/ recognised research institutions holding analogous posts on a regular basis or 3 years regular service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 or 8 years regular service in the scale of pay Rs. 6500-200-10,500 and having good knowledge of accounts and administration.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

If a DPC exists what is its composition :

N.A.

1. Joint Secretary, DOC —Chairman
2. Director —Member
3. Member of Governing Board —Member
4. One Member to be nominated by the DOC belonging to SC/ST.

1	2	3	4	5	6
3. Theatre & Performance Executive	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "A"	Rs. 8,000-275-13,500	Selection by Merit	No

7	8	9	10
35 years	Essential : (1) A. Degree of a recognised university. (2) Should have put in 12 years of teaching Experience in Bharatanatyam or Carnatic music. (ii) Should have ability to read and write one of the languages viz. Sanskrit/Telugu/Kannada/Malayalam and Hindi. (iii) Good knowledge of stage lighting, stage craft, choreography and experience in dance performance. (iv) Experience in costume designing and colour scheme.	No	2 years in the case of direct recruitment.



11			12		
By promotion failing which by Direct Recruitment.			Assistant Professors in the grade Rs. 6500-200-10,500 with minimum 7 years experience.		
13			14		
1. Joint Secretary from the Department of Culture			Not applicable		
2. One member of the Governing Board to be nominated by the G.B. and			—Chairman		
3. Director/Kalakshetra Foundation,			—Member		
			—Member		
1	2	3	4	5	6
4. Chief Accounts Officer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "B"	Rs. 7450-225-11,500	N.A.	No
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11			12		
Deputation/Short term contract			Officers of IAAD/ICAD or any organised Govt. Department/Service holding analogous posts or having 5 years regular service in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000 and passed SOG examination.		
13			14		
N.A.			N.A.		
1	2	3	4	5	6
5. Administrative Officer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "B"	Rs. 6500-200-10,500	Selection-cum-seniority	No
7	8		9		10
Not above 45 years	Essential : (i) Graduate. (ii) with 8 years regular service in the pay scale of Rs. 5500-175-9000 or 12 years service in the pay scale of Rs. 5000-150-8000. 2. 10 years experience in a supervisory cadre in Central/State/Autonomous bodies or PSU. 3. Knowledge of Central Govt. Rules and Regulations. 4. Knowledge of accounts.		No		2 years for direct recruits.

11	12
By promotion/deputation, short term contract failing which or by direct recruitment.	Deputation of Officers from Central Autonomous Organisations/Statutory Organisations/recognised research institutions holding analogous posts or 8 years regular service in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000.

13	14
1. Joint Secretary, or his nominee DOC —Chairman	N.A.
2. Director —Member	
3. Member of Governing Board —Member	

1	2	3	4	5	6
6. Engineer Officer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "B" (Non-Gazetted)	Rs. 5500-175-9000	No	No

7	8	9	10
35 years (relaxation in specific categories as per Central Govt. Rules).	B.E. (Civil/Electrical) with 5 yrs. experience or DCE/DEE with 7 yrs experience in building construction work or practical experience in electrical engineering.	N.A.	2 years

11	12
Direct recruitment	N.A.

13	14
1. Joint Secretary, DOC —Chairman	N.A.
2. Director, Kalakshetra Foundation —Member	
3. One member nominated by Governing Board	
4. One expert in the concerned field	

1	2	3	4	5	6
7. EDP Programmer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "B" (Non-Gazetted)	Rs. 5000-150-8000	N.A.	No

7	8	9	10		
35 years	Educational and other qualification required for Direct Recruits. <b>Essential :</b> (i) Degree in statistics/Mathematics/ Operations Research/Physics or economics/Commerce (with statistics) or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised university or equivalent . (ii) Two years experience of an electronics data processing work including one year experience of computer programming/operation. <b>Desirable :</b> Knowledge of one or more programming languages.	N.A.	2 years		
11		12			
Direct recruitment		N.A.			
13		14			
1. Director, DOC 2. Director, Kalakshetra Foundation 3. One member nominated by Governing Board 4. One expert in the concerned field		—Chairman —Member N.A.			
1	2	3	4	5	6
8. Administrative Assistant	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 4500-125-7000	Selection-cum-seniority	No
7	8	9	10		
28 years	<b>Essential :</b> (i) Graduate. (ii) 5 years experience in Administration/Government Accounts with knowledge of Rules and Regulations of Central Government. <b>Desirable :</b> Knowledge of working on computer-"O" level DOEACE	Age : No E.Q. : No	2 years for direct recruits		

11			12		
By promotion failing which by Direct Recruitment.			UDC (in pay scale of Rs. 4000-100-6000) with 5 years regular service in the grade.		
13			14		
1. Director.			N.A.		
2. Member of Governing Board			N.A.		
3. Nominee of DOC			N.A.		
1	2	3	4	5	6
9. Senior Accountant	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 5000-150-8000	Selection cum seniority	N.A.
7	8		9	10	
N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
11			12		
By promotion			Accountant with 8 years regular service in the grade		
13			14		
1. Director			N.A.		
2. Member of Governing Board			N.A.		
3. Nominee of DOC			N.A.		
1	2	3	4	5	6
10. Accountant	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 4500-125-6000	N.A.	No
7	8		9	10	
35 years	Essential : (i) B. Com., from a recognised university or equivalent. (ii) 4 years experience in Accounts writing in any reputed organisation. (iii) Knowledge of working on computers.		N.A.	2 years	
11			12		
Promotion failing which Direct Recruitment.			1. UDC with 5 years experience. 2. LDC with B. Com with 5 years experience.		

13			14		
1. Director, Kalakshetra Foundation			—Chairman		
2. Nominee of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
11. Upper Division Clerk	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 4000-100-6000	Selection-cum-seniority	No
7	8		9	10	
N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
11			12		
By promotion			L.D.C. with 8 years regular service in the grade		
13			14		
1. Director			—Chairman		
2. Member of Governing Board.			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
12. Lower Division Clerk	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload. One post in Central Office One Post in BASS	Group "C"	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	No
7	8		9	10	
27 years	<b>Essential :</b> (i) Graduate (ii) Typing (English) higher grade (iii) Knowledge of working on computer <b>Desirable :</b> (i) 3 years experience in an organisation		N.A.	2 years	
11			12		
Direct Recruitment.			N.A.		

13			14		
1. Director			—Chairman		
2. One Representative Nominated by Governing Board.			—Member		
3. One Representative of the DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
13. Senior Stenographer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 4500-125-7000	Selection-cum-seniority	No
7	8			9	10
35 years	<b>Essential :</b> 1. Graduate 2. Pass in the Higher grade Type writing (English) and Short hand 100 wpm (English) Examination 3. 5 years experience in Central/ State Govt. or in an organisation of repute 4. Knowledge of working on computer—O Level DOEAEC			Age EQ No No	2 years for Direct Recruits
11			12		
By promotion failing which by Direct Recruitment			Jr. Stenographer with 5 years regular service in the grade		
13			14		
1. Director			—Chairman		
2. Member of Governing Board			—Member		
3. Nominee of DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
14. Junior Stenographer	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 4000-100-6000	N.A.	No

7	8	9	10
25 years	<b>Essential :</b> 1. Graduate with Typing (English) — 80 wpm higher and Short hand (English) — 80 wpm lower with 3 years experience in an organisation of repute 2. Knowledge of working on computers—O Level of DOEAE	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13		14
1. Director, Kalakshetra Foundation	—Chairman	N.A.
2. Nominee of Governing Board	—Member	
3. Representative of DOC	—Member	

1	2	3	4	5	6
15. Technical Officer Grade B	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "B" (Non-Gazetted)	Rs. 5500-175-9000	N.A.	No

7	8	9	10
35 years	<b>Essential :</b> (i) Degree Electrical/ Electronics & Telecommunication Engineering from a recognised university. (ii) Five years experience in stage lighting and sound system (iii) Capacity to handle modern equipment of stage lights like computerised/control panels & Boards etc. <b>Desirable :</b> (1) Experience in video-graphy and sound recording.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment.	N.A.

13			14		
1. Director Kalakshetra Foundation			—Chairman		
2. Nominee of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
16. Driver Mechanic	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group "C"	Rs. 3050-75- 3950-80-4590	No.	No.
7			9		
30 years			N.A.		
8			10		
Essential :			2 years		
(i) S.S.L.C. with a valid licence for HMV issued by State Govt.					
(ii) 5 years of experience in driving Heavy Vehicle.					
(iii) Should have good knowledge of vehicle maintenance and be able to attend to Minor repairs etc.					
11			12		
Direct Recruitment			N.A.		
13			14		
1. Director, Kalakshetra Foundation			—Chairman		
2. Nominee of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
1	2	3	4	5	6
17. Cleaner (Bus)	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs.2550-55- 2660-60-3200	N.A.	No.
7			9		
28 years			N.A.		
8			10		
Class VIII Pass			2 years		
11			12		
Direct Recruitment.			N.A.		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. A nominee of Governing Board.			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		



1	2	3	4	5	6
18. Senior Technician (Theatre)	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	No
7		8		9	10
N.A.		N.A.		N.A.	N.A.
11	12				
Promotion			Technician with 5 years regular service in their grade or persons in the pay scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with 8 years experience in their grade and having knowledge of stage management and arrangement.		
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman			N.A.	
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative, DOC					
1	2	3	4	5	6
19. Technician	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	No
7		8		9	10
30 years		(i) Class 8th Pass. (ii) 5 years experience in stage management in a cultural institution.	Age —No EQ.—Yes		2 years for Direct Recruits
11	12				
By Promotion failing which Direct Recruitment			Persons of Foundation in the pay scale of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with 5 years regular service in their grade having knowledge of stage management and arrangement.		
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman			N.A.	
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative, DOC					

1	2	3	4	5	6
20. Electrician	3* (2000) *Subject to variation dependent on workload. Central Office —1 RDCFA —1 BCCH —1	Group C	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection-cum-seniority	No
7	8	9	10		
25 years	S.S.L.C. Pass with valied 'B' licence issued by the State Electricity Board and having 5 years of experience in an organisation of repute.	Age—No EQ.—Yes		2 yrs. for Direct Recruits	
11	12				
By Promotion failing which Direct Recruitment		Asstt. Electrician with 4 years regular service in the grade.			
13	14				
1. Director	—Chairman				N.A.
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Nominee of, DOC					
1	2	3	4	5	6
21. Assistant Electrician	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	N.A.	No
7	8	9	10		
30 years	(i) Class X pass. (ii) Certificate in Electrical Engg. from an I.T.I. (iii) 5 years experience in the field.	N.A.		2 yrs.	
11	12				
Direct Recruitment		N.A.			
13	14				
N.A.				N.A.	

1	2	3	4	5	6
22. Watchman	5* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2550-55-2660-60-3200	N.A.	No
7	8	9	10		
30 years	(i) Class VIII pass. (ii) Experience in security work. Desirable : (iii) Ex-servicemen will be given preference.	N.A.	2 yrs.		
11	12				
Direct Recruitment	N.A.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative from the DOC					

1	2	3	4	5	6
23. Gardener	10* (2000) *Subject to variation dependent on workload. Central Office —7 BASS —1 BCCH —2 10	Group D	Rs. 2550-55-2660-60-3200	N.A.	No
7	8	9	10		
30 years	(i) Class VIII pass. (ii) Experience in security work. Desirable : (iii) Ex-servicemen will be given preference.	N.A.	2 yrs.		
11	12				
Direct Recruitment	N.A.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative from the DOC					

1	2	3	4	5	6
24. Peon	6* (2000) *Subject to variation dependent on workload. Central Office —3 BASS —1 BCCH —1 CERC —1 6	Group D	Rs. 2550-55- 2660-60-3200	N.A.	No
7	8	9	10		
30 years	Class VIII pass	N.A.	2 yrs.		
11	12				
Direct Recruitment	N.A.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative from the DOC					
1	2	3	4	5	6
25. Sweeper	5* (2000) *Subject to variation dependent on workload. Central Office —4 BCCH —1 5	Group D	Rs. 2550-55- 2660-60-3200	N.A.	No
7	8	9	10		
25 years	(i) Class VIII pass. (ii) Experience in security work. Desirable : (iii) Ex-servicemen will be given preference.	N.A.	2 yrs.		
11	12				
Direct Recruitment	N.A.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Nominee of the Governing Board	—Member				
3. Representative from the DOC					
1	2	3	4	5	6
26. Sanitary Worker	6* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2550-55- 2660-60-3200	N.A.	No

7	8	9	10		
30 years	Class VIII pass	N.A.	2 years		
11		12			
Direct Recruitment		N.A.			
13		14			
N.A.		N.A.			
1	2	3	4	5	6
1. Principal (Rukmini Devi College of Fine Arts)	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 9100-275- 14,050 (T.N. State Govt. Scales)	Selection By Merit	No

7	8	9	10
45—50 years	<b>Educational &amp; Technical Qualifications prescribed for the post:</b> (i) a diploma or a degree in the field of specialisation. (ii) proficiency/good knowledge of music or Dance, though he/she may not be a performing artist he/she should have the capacity to perform in the category of specialisation. (iii) the capacity to get on well with artists. (iv) Academic degree will be an additional qualification. (v) Knowledge of local language and English is essential, knowledge of Hindi will be an additional qualification. (vi) Should have put in about 10 years service in a supervisory capacity in a reputed institution.	Age No EQ Yes	N.A.
11		12	
By promotion failing which by transfer on deputation/ short-term contract/Officers holding similar posts in reputed and recognised Central/State/Autonomous institute with 7 yrs of experience in 8000-275-13500 grade and possessing the educational qualification as given above.		Professors of the Rukmini Devi College of Fine Arts with 7 years approved service in the grade.	
13		14	
1. Joint Secretary 2. Director or his nominee 3. Member of Governing Board 4. One member to be nominated by the Director belongs to respective grade from any Central/State or other auto- nomous body or P.S.U. 5. One expert from the appropriate field.	—Chairman —Member	N.A.	

1	2	3	4	5	6
2. Professor (Bharatanat- yam)	5* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 8000-275- 13500 (T.N. State Govt. Pay Scales)	Selection by merit	Yes
7	8	9	10		
50 years	<b>Essential :</b> (a) Class Xth Pass. (b) Diploma holder or post diploma holder from a recognised institution in the particular field. (c) Should be able to handle final year Diploma and post Diploma classes including theory. (d) Should be able to take part in Kalakshetra productions. (e) Able to give a solo perfor- mance for about 2 hours. (f) Should be able to sing and conduct dance programmes by doing Nattuvangam. <b>Desirable :</b> (i) Graduate of a recognised university or equivalent. (ii) Knowledge of any of the South Indian languages and Hindi. Ability to write music and dance notations.	Age : No EQ : Yes	2 years		
11	12				
By promotion failing which deputation/short-term contract failing which by direct recruitment	Assistant professors (Bharatanatyam) with 8 years of service in the grade.				
13	14				
1. Member of Governing Board 2. Director 3. Director or Representative not below the rank of Director from Department of Culture 4. Specialist in the field	N.A.				

1	2	3	4	5	6
3. Assistant Professor (Bharatanatyam)	4* (2000) *Subject to variation depending on workload.	Group 'B'	Rs. 6500-200-13500 (T.N. State Govt. Pay Scales)	Selection on merit	No
7	8	9	10		
40 years	N.A.	N.A.			2 years
11	12				
By promotion failing which by dept./S.T.C.			Lecturer (Bharatanatyam) with 8 years of service in the grade.		
13	14				
1. Member of Governing Board			N.A.		
2. Director					
3. Director, Department of Culture					
4. Specialist in the field					
1	2	3	4	5	6
4. Lecturer (Bharatanatyam)	5* (2000) *Subject to variation depending on workload.	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000 (T.N. State Govt. Scales)	Selection by merit	No
7	8	9	10		
45 years	Essential :		Age : No EQ : Yes	N.A.	
		(i) Class Xth Pass.			
		(ii) Diploma holder or post diploma holder from a recognised institution in the particular field.			
		(iii) Should be able to give solo performance for about 2 hours.			
		(iv) Should be able to sing and conduct dance programmes by doing Nattuvangam.			
		(v) Should be able to take part in Kalakshetra productions;			
		(vi) Should be able to handle all the juniore and senior level classes and theory in English.			

8

- (vii) Should have a minimum of 7 years experience in the field.

**Desirable :**

Knowledge of a South Indian languages and Hindi. Ability to write music and dance notations.

11

By promotion failing which by transfer on deputation/short-term contract Deputation/ST.C. Official holding.

12

Tutor (Bharatanatyam) with 7 years failing which Direct Recruitment Regular service in the grade.

13

1. Member of Governing Board
2. Director
3. Nominee of Department of Culture
4. Specialist in the field

14

N.A.

1

2

3

4

5

6

5. Tutor (Bharatanatyam)

6\* (2000)  
\*Subject to variation dependent on workload.

Group 'C'

Rs. 5000-150-8000  
(T.N. State Govt. Pay Scales)

N.A.

No

7

30 years

8

**Essential :**

- (a) Class Xth Pass.
- (b) Diploma holder or post diploma holder from a recognised institution in the particular field.
- (c) Should be able to take part in Kalakshetra productions and to give a solo performance for about 2 hours.
- (d) Able to sing and conduct dance programme by doing Nattuvangam.
- (e) Should be able to handle the practical and theory classes in English.

**Desirable:**

- (1) Knowledge of any South Indian language and Hindi and ability to write music and dance notation.

9

N.A.

10

2 years



11			12		
Direct Recruitment			N.A.		
13			14		
1. Member of Governing Board		—Chairman	N.A.		
2. Director		—Member			
3. Nominee of Department of Culture		—Member			
4. Specialist in the field		—Member			
1	2	3	4	5	6
6. Professor (Music)	3* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 8000-275-13500 (T.N. State Govt. Scales)	Selection on merit	Yes
7	8		9		10
50 years	<b>Essential :</b> (i) Class Xth Passed (ii) Diploma or degree or post diploma holder from a recognised institution in the particular field. (iii) Able to handle final year Diploma and post Diploma programme classes with theory. (iv) Should be able to sing for dance programmes and dance-dramas of Kalakshetra. (v) Ability to read and write music notations.		Age No	E.Q. Yes	2 years for direct recruits.
<b>Desirable:</b> (i) Graduate of a recognised university or equivalent. (ii) Ability to play an instrument in respect of vocal professors and be able to sing in respect of Professors in instruments while handling classes. (iii) Knowledge of a south Indian language/Hindi (iv) A grade artist of AIR of 5 years standing.					

11				12	
By promotion failing which by deputation (with short-term contract) transfer failing which by Direct Recruitment				Assistant professors (Music) with 8 years of service regular in the grade	
13				14	
1. Joint Secretary DOC				N.A.	
2. Member of Governing Board				—Chairman	
3. Director				—Member	
4. Expert from respective field				—Member	
1	2	3	4	5	6
7. Assistant Professor (Music)	4* (2000) *Subject to variation depending on workload.	Group 'B'	Rs. 6500-200-13500 (T.N. State Govt. Pay Scale)	Selection on merit	No
7	8	9	10		
40 years	N.A.	Age No E.Q. Yes	2 years		
11				12	
By promotion				Lecturer (Music) with 8 years of service in the grade	
13				14	
1. Member of Governing Board				N.A.	
2. Director				—Chairman	
3. Director of Department of Culture				—Member	
4. Specialist in the field				—Member	
1	2	3	4	5	6
8. Lecturers (Music)	5* (2000) *Subject to variation depending on workload.	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000 (T.N. State Govt. Scale)	Selection on merit	No
7	8	9	10		
45 years	Essential :	Age No E.Q. Yes	2 years for direct recruits.		
	(i) Class Xth Passed				
	(ii) Should be a diploma holder in music from a recognised institution				
	(iii) Should be able to accompany dance performances and dance-dramas of Kalakshetra				
	(iv) Should be able to read and write music notations.				

8

- (v) Should be able to handle the practical and theory classes.

**Desireable:**

- (i) Knowledge of a south Indian language.  
(ii) BH artist of AIR of 5 years standing.

11

12

By promotion failing which by transfer on Deputation/or short-term contract/failing which by Direct Recruitment

Tutors (Music) in with 7 years regular service in the grade

13

14

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Member of Governing Board                                       | —Chairman |
| 2. Director  | —Member   |
| 3. Director DOC or nominee from DoC not below the rank of Director | —Member   |
| 4. Expert in the field   | —Member   |

N.A.

1	2	3	4	5	6
9. Tutor (Music)	6* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Rs. 5000-150-8000 (T.N. State Govt. Scale)	N.A.	No

7

8

9

10

30 years

**Essential:**

- (i) Class Xth Passed  
(ii) Should be a Diploma or degree holder in music from a recognised institution  
(iii) Should be able to accompany dance performances and dance-dramas of Kalakshetra  
(iv) Should be able to read and write music notations  
(v) Should be able to handle the practical and theory classes.

N.A.

2 years

**Desirable:**

- (i) Knowledge of a south Indian language.  
(ii) BH artiste of AIR

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13	14
1. Member of Governing Board	—Chairman N.A.
2. Director	—Member
3. Nominee of Department of Culture	—Member
4. Specialist in the field	—Member

1	2	3	4	5	6
10. Registrar	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Rs. 6500-200-10500	Selection cum-Seniority	No

7	8	9	10
40 years	A Lecturer in Bharatnatyam or Carnatic music with 8 years experience in a reputed institution with qualification as required for the post of lecturer	Age No E.Q. Yes	N.A.

11	12
By promotion failing which by transfer on deputation/short-term contract failing which by Direct Recruitment	A lecturer (Bharatnatyam & Carnatic Music) with 8 years approved service in the grade Deputation : Short Term Contract

13	14
1. Director or a Representative from DOC	—Chairman N.A.
2. Director	—Member
3. Member of Governing Board	—Member
4. Expert from the field	—Member

1	2	3	4	5	6
11. Costume Asstt. Gr. I	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Rs. 4000-100-6000	Selection-cum-seniority	No

7	8	9	10
35 years	<b>Essential :</b> (i) Degree of a recognised University. (ii) Capacity to assess the requirements of a new production. (iii) Knowledge of crafts; with minimum experience of 10 yrs. in handling costumes for stage performances. (iv) Able to maintain proper inventory of stage property, jewellery & Costumes. (v) Knowledge of Tamil. <b>Desirable :</b> (i) Knowledge of Music or dance. (ii) Knowledge of Hindi or other South Indian languages will be an additional qualification. (iii) Diploma in costume design.	Age : No Edn. Qn. : Yes	2 years

11	12
Promotion failing which by direct Recruitment	Costume Asstt. G. II with 8 years of regular service in the grade.

13	14
1. Member of Governing Board	—Chairman
2. Director or his nominee	—Member
3. Nominee, DOC	—Member
4. Expert Member	

1	2	3	4	5	6
12. Costume Asstt. Gr. II	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	No.

7	8	9	10
30 years	<b>Essential :</b> (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Capacity to assess the costume requirements of a new production. (iii) Experience of stitching (tailoring) crafts, Knowledge of crafts. (iv) Able to maintain proper inventory of stage property, jewellery & Costumes. <b>Desirable :</b> (i) Knowledge of Music or dance. (ii) Knowledge of Hindi or other South Indian languages.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13		14
1. Member of Governing Board	—Chairman	N.A.
2. Director or his nominee	—Member	
3. Nominee, DOC	—Member	
4. Expert Member		

1	2	3	4	5	6
13. Instrument Mechanic	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	No

7	8	9	10
30 years	<b>Essential :</b> (i) Class Xth pass. (ii) Ability to read and write Tamil essential. (iii) Ability to carry out repairs to instruments like Mridangam, Violin, Veena etc. (iv) Able to tune instruments correctly. <b>Desirable :</b> (i) Ability to play on any musical instrument. (ii) Certificate of maintenance of Musical instruments from a recognised institution.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13		14
1. Member of Governing Board	—Chairman	N.A.
2. Director or his nominee	—Member	
3. Nominee, DOC	—Member	
4. Expert Member		

1	2	3	4	5	6
14. Librarian	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000	Selection-cum-seniority	No.

7	8	9	10
35 years	<b>Essential :</b> (i) Degree from recognised University or equivalent. (ii) Bachelor of Library Science from a recognised University or equivalent. (iii) Five years experience in a Library attached to Central/State Government institution or a special library of similar nature. <b>Desirable :</b> (i) Masters degree in Library Science from a recognised University. (ii) Knowledge of Library automation. (iii) Ability to read and understand Sanskrit and other South Indian Languages. (iv) Ability to read music notations.	Age : No EQ : Yes	2 years

11	12
By promotion failing which transfer on deputation/ short-term contract failing which by direct recruitment.	Library Asstt. with 15 years regular service in the grade. Deputation from S.T.C.

13	14
1. Director of his nominee 2. Member of Governing Board 3. Nominee of DOC 4. One member to be nominated by the Director belonging to the SC/ST category.	— Chairman — Member — Member

1	2	3	4	5	6
15. Library Assistant	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 3050-75- 3950-80- 4590	N.A.	No

7	8	9	10
30 years	(i) Graduate of any recognised University. (ii) Certificate of Library Science from a recognised University/ Institution. <b>Exp :</b> (i) 2 years in a library recognised by the Govt. or a library of equivalent nature.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13	14
1. Director 2. Under Secretary, DOC 3. One member to be nominated by the Governing Board	— Chairman — Member — Member

## 3. BESANT ARUNDALE SR. SECY. SCHOOL

1	2	3	4	5	6
1. Principal	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group B	Rs. 6500- 200-10500 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay) + Rs. 600 (PP)	Selection on merit	No
7	8	9	10		
40 years	<b>Essential :</b> (i) At least a 1 class Masters Degree in Science/Arts. (ii) A degree or P.G. degree in Education. (iii) Experience not less than 8 years as Post Graduate Teacher in a recognised Senior Secondary/Central Government School. <b>Desirable :</b> Working knowledge of Hindi, Experience in organising games and sports and Co-curricular activities, knowledge of State/ Central Govt. Rules.	Age : No Edu. Qlfn. : Yes	N.A.		
11	12				
By promotion failing which Direct Recruitment.	Post graduate teacher with 8 years regular service in the grade.				
13	14				
1. Director or his nominee 2. Member of Governing Board 3. Representative of DOC 4. One expert in the relevant field, nominated by Governing Board.	—Chairman — Member N.A.				
1	2	3	4	5	6
2. Manager	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group B	Rs. 6500- 200-10500	N.A.	No
7	8	9	10		
35 years	(i) M.A./M.Sc./M. Com. from a recognised University or equivalent. (ii) A degree in Education. (iii) Knowledge of Central Government Rules and Regulations. (iv) 5 years experience in management of a School.	N.A.	2 years		
11	12				
Direct Recruitment.	N.A.				



13			14		
1. Director or his nominee		—Chairman			N.A.
2. Member of Governing Board		—Member			
3. Representative of DOC					
4. One expert nominated by the Governing Board.					
1	2	3	4	5	6
3. Post Graduate Teacher	12* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group B	Rs. 6500-200 '0500 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	Selection on merit	No
7	8			9	10
27 years	(i) Master's degree in concerned subject from a recognised university or equivalent. (ii) Degree in Education. (iii) 5 years experience in a State/Central Government recognised school			Age : No Edu. Qlfn. : Yes	2 years for direct recruits
11			12		
Promotion failing which by Direct Recruitment			T.G.T. with 8 years approved service in the grade		
13			14		
1. Director or his nominee		—Chairman			N.A.
2. Member of Governing Board		—Member			
3. Representative of DOC (Under Secretary)					
4. Expert Member to be nominated by Director					
1	2	3	4	5	6
4. Trained Graduate Teacher	5* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 5500-175-9000 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	Selection cum seniority	No
7	8			9	10
27 years	(i) Bachelor degree from a recognised University or equivalent (ii) Degree in Teaching (iii) 8 years teaching experience in a State/Central recognised School			Age : No Edu. Qlfn. : Yes	2 years for direct recruits

157 61/05 -9

11	12
Promotion failing which by Direct Recruitment	S.G.T. with 8 years approved service in the grade

13	14
1. Director or his nominee	—Chairman
2. Member of Governing Board	—Member
3. Representative of DOC (Under Secretary)	—Member
4. Expert Member to be nominated by Director	—Member

1	2	3	4	5	6
5. Secondary Graduate Teacher	6* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4500-125-7000 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	N.A.	No

7	8	9	10
27 years	(i) Higher Secy. with JBT Plus two Examination (Sr. School Certificate examination) with JBT; (ii) 3 years teaching experience in a State/Central Govt. recognised School.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13	14
1. Director or his nominee	—Chairman
2. Member of Governing Board	—Member
3. Representative of DOC	—Member
4. Expert Member to be nominated by Director	—Member

1	2	3	4	5	6
6. Music Teacher	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4500-125-7000 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	N.A.	No

7	8	9	10
27 years	<b>Essential :</b> (i) A degree in Music from any recognised University or equivalent or Higher Secondary with diploma from any of the recognised Sangeet Vidyapith. (ii) Diploma in Carnatic Music from Rukmini Devi College of fine Arts. <b>Desirable :</b> (i) "B" High grade artist of AIR in vocal carnatic music. (ii) Knowledge of Tamil. (iii) Experience in teaching Music. (iv) Knowledge of Hindi and any other south Indian language. (v) Ability to read and write music notation. (vi) Teacher's training certificate.	N.A.	2 years

11	12
Direct Recruitment	N.A.

13	14
1. Director or his nominee	—Chairman
2. Member of Governing Board	—Member
3. Representative of DOC	—Member
4. Expert Member to be nominated by Director	—Member

1	2	3	4	5	6
7. Art Teacher	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4500-125-7000 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	N.A.	No

7	8	9	10
27 years	(i) Graduate with Drawing and Painting/Art/Fine Art with minimum two years full time diploma from a recognised Institute OR (ii) M.A. in Drawing and Painting/Fine Art from a recognised University OR (iii) Higher Secondary/Intermediate Senior Secondary examination with minimum 4 years full time diploma in Painting/Fine Arts from a recognised Institute.	N.A.	2 years

11				12	
Direct Recruitment				N.A.	
13				14	
1. Director or his nominee				N.A.	
2. Member of Governing Board				—Chairman	
3. Representative of DOC				—Member	
4. Expert Member to be nominated by Director				—Member	
1	2	3	4	5	6
8. Physical Education Teacher	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4000-100-6000 (Tamil Nadu State Govt. scale of pay)	N.A.	No
7	8		9	10	11
27 years	Graduate in Physical Education or B.P. Ed or D.P. Ed awarded by a recognised University/Institution after training of minimum one academic session provided that the admission qualification for the diploma is at least a University Degree.		N.A.	2 years	Direct Recruitment
12	13			14	
N.A.	1. Director or his nominee			—Chairman	
	2. Member of Governing Board			—Member	
	3. Representative of DOC			—Member	
	4. Expert Member to be nominated by Director			—Member	
1	2	3	4	5	6
9. Librarian	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 5500-175-9000	N.A.	No
7	8		9	10	11
27 years	1. M.A. from a recognised University or equivalent		N.A.	2 years	Direct Recruitment
	2. Bachelor of Library Science from a recognised University or equivalent.				
	3. Five years experience in a Library attached to Central/State Government institution or a special library of similar nature.				
	Desirable				
	1. Masters degree in Library Science from a recognised University				
	2. Knowledge of Library automation.				
	3. Ability to read and understand Sanskrit and other south Indian Languages				
	4. Ability to read music notations.				

12	13		14		
N.A.	1. Director or his nominee 2. Member of Governing Board 3. Representative of DOC 4. One expert in the field nominated by the Governing Board		—Chairman —Member	N.A.	
1	2	3	4	5	6
10. Lab Attendant	3* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	N.A.	No
7	8	9	10	11	
25 years	(i) Class X Pass (ii) 3 years experience of working in a laboratory	Age No. Edu. Q. Yes	2 years for direct recruits	By promotion failing which by Direct Recruitment	
12	13		14		
All Group D employees of the Foundation having atleast 3 years regular service in respective grades	1. Director or his nominee 2. One member nominated by Governing Board. 3. One representative of DOC. 4. One expert in the field nominated by Director		—Chairman	N.A.	
1	2	3	4	5	6
11. Library Attendant	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	No
7	8	9	10	11	
25 years	(i) Class X Pass (ii) 3 years experience of working in a library	Age No. Edu. Q. Yes	2 years for direct recruits	By promotion failing which by Direct Recruitment	
12	13		14		
All Group D employees of the Foundation having atleast 3 years regular service in respective grades	1. Director or his nominee 2. One member nominated by Governing Board. 3. One representative of DOC. 4. One expert in the field nominated by Director		—Chairman	N.A.	

## 4. CRAFT EDUCATION AND RESEARCH CENTRE

1	2	3	4	5	6
1. Manager	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group B	Rs. 6500-200-10,500	N.A.	No
7	8	9	10	11	
35 years	(i) B. Com., from a recognised University or equivalent (ii) ACA/ICWA (inter) (iii) 5 years experience in State/Central Govt./Public Deptt./PSU (iv) knowledge of Central Govt. Rules & Regulations (v) Experience in management and marketing	N.A.	2 years	Direct Recruitment	
12	13	14			
N.A.	1. Director or his nominee —Chairman 2. Member of Governing Board —Member 3. Representative of DOC (Under Secretary)	N.A.			
1	2	3	4	5	6
2. Foreman	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4000-100-6000	N.A.	No
7	8	9	10	11	
35 years	(i) Class X Pass and (ii) Training in weaving of silk and cotton saris (iii) 5 years experience in a cooperative weaving Society (iv) Should be able to guide weavers to introduce different patterns and designs especially in silk saris	N.A.	2 years	Direct Recruitment	
12	13	14			
N.A.	1. Director or his nominee —Chairman 2. Member of Governing Board —Member 3. Representative of DOC 4. Expert in the field concerned	N.A.			
1	2	3	4	5	6
3. Supervisor	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 3200-85-4900	N.A.	No

7	8	9	10	11	
30 years	(i) Degree (ii) 5 years experience in block printing by using vegetable dyes and (iii) able to supervise the workers Desirable : Knowledge of Tailoring	N.A.	2 years	Direct Recruitment	
12	13	14			
N.A.	1. Director or his nominee 2. Member of Governing Board 3. Representative of DOC	—Chairman —Member		N.A.	
1	2	3	4	5	6
4. Skilled Worker	7* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 3050-75-3950-80-4590	N.A.	No
7	8	9	10	11	
25 years	(i) Class VIII pass (ii) Experience in Block Printing using natural dyes. (iii) Knowledge of Tailoring, process like boiling and dyeing etc.	No.	2 years	By promotion/failing which by direct recruitment	
12	13			14	
From semi skilled workers	Director-Chairman Chairperson C.E.R.C. Representative of the Deptt of Culture.			N.A.	
1	2	3	4	5	6
5. Semi Skilled Worker	7* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	N.A.	No
7	8	9	10	11	
25 years	(i) Class VIII Pass (ii) experience in Block printing and in use of vegetable dyes. (iii) Should have knowledge of process like boiling, dying, Tailoring etc., Desirable : (i) Tailing (ii) Drawing.	N.A.	2 years	Direct Recruitment	
12	13			14	
N.A.	1. Director or his nominee 2. Member of Governing Board 3. Representative of DOC (Under Secretary)	—Chairman —Member		N.A.	

**5. BESANT CULTURAL CENTRE HOSTEL**

S. BESANT CULTURAL CENTRE HOSTEL

1	2	3	4	5	6
1. Superintendent	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 4000-100-6000 Boarding and lodging free.	Selection-cum-Seniority	No

7	8	9	10
Between 40 to 50 years	Graduate with 8 years experience in Hostel Management having a student strength of 250	Age : No EQ : No	2 years for Direct Recruits

11	12
By promotion failing which by Direct Recruitment	House Mothers with 7 years service in the grade

13	14
1. Director 2. Member of Governing Board 3. Representative of DOC	—Chairman —Member N.A.

1	2	3	4	5	6
2. Store Keeper	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group C	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection-cum-Seniority	No

7	8	9	10
N.A.	S.S.L.C. Pass with 5 years experience in maintaining stores	Age : No EQ : Yes	2 years

11	12
Promotion failing which by Direct Recruitment	House Mothers/Cooks with 5 years regular service in the grade

13	14
1. Director or his nominee 2. Representative of DOC 3. Nominee of Governing Board	—Chairman N.A.

1	2	3	4	5	6
3. House Mother	5* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	N.A.	No



7	8	9	10		
30 years	(i) XII Pass (ii) 5 years experience in a Government/or semi Govt. girls hostel of a recognised institution.	N.A.	2 years		
11	12				
Direct Recruitment	N.A.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Member of Governing Board	—Member				
3. Representative of DOC					
1	2	3	4	5	6
4. Cook	3* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	No
7	8	9	10		
35 years	8th Pass with 8 years experience in the trade. Desirable : Experience of working and serving in a large hostel.	Age : No EQ : No	2 years for Direct Recruits.		
11	12				
By Promotion failing which by Direct Recruitment.	Asstt. Cook with 5 years experience in this grade.				
13	14				
1. Director or his nominee	—Chairman	N.A.			
2. Nominees of Governing Board	—Member				
3. Representative of DOC					
1	2	3	4	5	6
5. Assistant Cook	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Group D	Rs. 2550-55-2660-60-3200	N.A.	No
7	8	9	10		
25 years	(i) 8th pass (ii) 5 Years experience in Cooking.	N.A.	2 years		

11			12		
Direct Recruitment			N.A.		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13			14		
1. Director or his nominee			—Chairman		
2. Nominees of Governing Board			—Member		
3. Representative of DOC			—Member		
13					

[No. F. 3-13/99-MPCC]

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy.